



भिन्नों का गुणन (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{1}{8} \times \frac{1}{4} =$$

$$\frac{4}{8} \times \frac{2}{8} =$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8} =$$

$$\frac{5}{9} \times \frac{1}{6} =$$

$$\frac{4}{5} \times \frac{3}{8} =$$

$$\frac{7}{6} \times \frac{2}{7} =$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{4}{7} =$$

$$\frac{1}{6} \times \frac{2}{7} =$$

$$\frac{1}{7} \times \frac{7}{8} =$$

$$\frac{1}{9} \times \frac{1}{9} =$$



भिन्नों का गुणन (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$$

$$\frac{4}{8} \times \frac{2}{8} = \frac{1}{8}$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{16}$$

$$\frac{5}{9} \times \frac{1}{6} = \frac{5}{54}$$

$$\frac{4}{5} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{10}$$

$$\frac{7}{6} \times \frac{2}{7} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{4}{7} = \frac{1}{7}$$

$$\frac{1}{6} \times \frac{2}{7} = \frac{1}{21}$$

$$\frac{1}{7} \times \frac{7}{8} = \frac{1}{8}$$

$$\frac{1}{9} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{81}$$